

NITIN SPINNERS LTD.



REF: NSL/SG/2021-2022

Date: 09.08.2021

BSE Limited

Department of Corporate Services

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai - 400 001

(c) - (3)

Company Code - 532698

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Bandra Kurla Complex

Bandra (E),

Mumbai - 400 051.

Company ID - NITINSPIN

<u>Sub.</u>: <u>Submission of copy of Newspaper in respect of Publication of Notice to Shareholders for updation of E-mail addresses and bank details</u>

Dear Sir/Madam,

Please find attached the relevant page of "Financial Express" (English) dated 08.08.2021 and the "Pratahkal" (Hindi) newspapers dated 07.08.2021 for publication of Notice to Shareholders for updation of their E-Mail addresses & Bank details for sending of Notice for 29th Annual General Meeting & Payment of dividend through ECS or any other electronic mode.

We hope you will find above in order.

Thanking you,

Yours faithfully,

For-Nitin Spinners Ltd

(Sudhir Garg)

Company Secretary & GM (Legal

Encl a/a

CIN.: L17111RJ1992PLC006987

Regd. Office & Plant: 16-17 Km. Stone, Chittor Road, Hamirgarh, Bhilwara (Raj.) 311 025

Tel.: 286110 to113, Fax: 91-1482-286114 & 117

E-mail: nsl@nitinspinners.com, Website: www.nitinspinners.com









Chopra strikes gold

Not the biggest or bulkiest of throwers, he relied on speed to generate power in his throws. Second in the starting list for the final, the Indian laid down the

tinal, the Indian laid down the gauntlet in a tough field with a massive throw of 87.03 m. "That was our strategy," his coach Klaus Bartonietz said. "We wanted to put pressure on the rest of the field straightaway and

rest of the field straight away and the only way we could do that was by throwing big." It was one of those rare days when everything aligned per-fectly for Chopra. He looked calm and relaxed, had a sip of an energy drink just before

Data analysed from finan-cial presentations of the top-seven listed real estate compa-nies showed that they were gearing up to launch around 92.5 MSF of residential space within the next one-two years. Apart from the top seven cities, they are also zeroing in on major tier-I and -III towns. At least 70-75% (64.75-69.40 MSF) of this supply may be launched in FY2.2, it added. An analysis of numbers from previous financial years indicates a steady annual growth in launches. Despite Covid-19 in PY2.2, the total new launches by the top seven listed players rose 11% V-o-V from around 28.3 MSF in FY20 to about 31.37 MSF in FY20. about 31.37 MSF in FY21 about 31.37 MSF in FY21.
The consultancy analysed data from Brigade Enterprises, Godrej Properties, Kolte-Patil, Mahindra Lifespace Developers, Prestige Estates, Puravankara and Sobha.

calm and relaxed, had a sip of an energy drink just before his turn came and announced his intentions. With the second throw, he went farther, recording 87-58 m.

Chopra being way ahead of the field was not the biggest surprise. He had done that during the qualifying round as well but with the weather a lot clearer but equally humid on Saturday, it was expected others, including the sport's current biggest star Johannes Vetter, would raise his game.

Vetter was the outright favourite to win gold, having recorded throws of 90-plus metuse for frunt this year. Buthed been having troubles with his technique and had complained about the track being slippery. Vetter didn't look comfortable during the final as well, struggling to get a proper grip on the surface and slipping multiple times. After a first attempt of \$2.52 m, he turned over his ankle and slipped in his next hrow. His third throw, like the second, was also a foul.

With the world's best javelin thrower in the last 12 months out of the fray, other strugeled

ver in the last 12 months thrower in the last 1.2 months out of the fray, other struggled to come close to Chopra's effort. The next best throw, by Ceech Republic's Jakub Vadie-jch, was almost a metre short and the bronze medal winner, Vitezslav Vesely was a good 2.14 m behind the Indian. "The planwas just top oafter my personal best. I knew if I matched that, I would finish on the podium, Chopra said. Hedd finish on the podium, on the top to When hew sappen.

The Idea of Idea o

year-ous said after winning. "Thisis our first Clympic media for avery long time, and in athletics it is the first time we have gold, soil's a proud moment for me and my country." Asked Ifhe was surprised to win gold which also featured German great Johannes Vetter, he said, "in the qualification round! I threw very well so I knew I could do better in the final. (But) I didn't know it would be gold but I am very happy."

Applauding his effort, President Kovind described it as an 'unprecedented' achievement which will prove to be an inspiration for they out to first court yet. Congratulating Chopra, Prime Minister Modi said his performance will be remember for the country.

Prime Minister Modi said his performance will be remem-bered for ages. Welcoming him to the club, Bindra wrote: "Wei-come to the club - a much needed addition! Extremely proud. I am so delighted for you."

9.75 crore farmers to get over ₹19,500 cr

The current payment to be transferred Monday is for August-November period. States first upload farmers' data in the public finance management system, a platform that autoverifies bank accounts and authenticate Aadhaardetails of beneficiaries and the new transferrent payments and the states of the professions and the new transferrent payments are transferrent payments. beneficiaries, and then returns the data to states for physical

the data to states for physical signatures.
"The support will aid farmiers partially meet the expenses on fertilisers and pesticides in ongoing haari sowing season that will complete by end of next month," said an agriculture ministryofficial Prime Minister Narendra Modi will interact with farmer beneficiaries during the event of benefit transfer and will also address the nation. After wimining state asseming state assemin

and will also address the nation. After winning state assembly poll for third consecutive term, chief minister Mamata. Banerjee agreed to join PM-Kiann scheme as West Bengal was the only state that resisted implementation. While about seven lakif arms in the state received the benefit for the first time in May getting together two instalments totalling 47,4000 each, as many as 28.5 lakif farmers are expected to

financiale ep .in

From the Front Page

receive the benefit Monday as registration has increased sub-stantially in past three months. pipeline clearly indicates that strong, listed developers will continue to dominate the new Home buyers now

look beyond metros

The current expansion

continue to dominate the new residential supply and acceler-ate their market share gain, Anarock pointed out. Robust housing sales by the top seven listed players in pre-vious financial years have proved to be a huge confidence booster. Data indicated that these firms rumulatively sold booster. Data indicated that these firms cumulatively sold around 32.61 MSF of housing, in FY21 despite the pandemy, 7% growth over FY2020, when about 30.45 MSF area was sold. Anarock Property Consultants chairman Anuj Puri said. "Covid has driven a lot of latent demand into tier-II and -II cities. This demand is driven by improved economic growth, infrastructural developments, lower cost of living and more

lower cost of living and more lower cost of living and more attractive real estate prices in these cities. However, it is the new work from home (WFH) dynamic which has worked most strongly in their fravouras they continue to attract migrant professionals, Puri explained. The days when these cities residential supply was dominated by local players will soon be over. Demand is also chasing projects by leading developers, so their expansion into such

NITIN SPINNERS LIMITED

Regd. Office - 16-17 Km. Stone, Chitter Road, Hamirgarh,
Bhilwara - 311625 (Raj.) Phone No. 01482-265110, Fax No. 01492-26171
E-mail: investorrelations@nilinspinners.com Website: www.nilinspinners.

INFORMATION REGARDING 29TH ANNUAL GENERAL MEETING
OF THE COMPANY - UPDATION OF E-WAIL ADDRESSES AND BANK DETAILS

GF THE COMPANY - UPDATION OF E-MAIL ADDRESSES AND BANK DETAILS NOTICE is havely given that 28th Areau General Meeting (AGA) of the Conceasy with held on Thansday, 18th Superiment 20th Area (13.00 PM (1817) through Video Conference (VC)(O) Chee Audio Vasal Meeting (CAN) to Inmassed the business set on in the Notice of the AGA! A normplance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 (The Act) and relas frometh even under provisions of the SSE (Listing (Neglisions and Dischorment State) and relas frometh even under provisions of the SSE (Listing (Neglisions)) and General Circular Requirements). Regulations, 2015 (Listing Regulations) and General Circular Contains (Carlot Not 17020 et al. 18th Agricular Companies Affairs (MAC Circulars) read with Circular Notice (Carlot Not 17020 et al. 18th Agricular Companies Affairs (MAC Circulars) read with Circular Notice (SSE) (Associated State Associated (18th Agricular State Associated Sta

(RTA) of the Company.

The Notice and Annual Report-2020-21 will also be uploaded on the Company's website viz. www.nitespinets.com in the website of CDSL viz. www.eveningindis.com and the websites of the BSE Limited viz. www.bseindis.com and the National Stock Exchange of India Lid viz. www.bseindis.com.

India Life Varwww.nendia.com
The Board of Dirucho has recommended dividend at the rate of Puppers 1.50, since having nominal value of Re.10⁶- each for the Financia Vice and Call Service of the Pinancia Vice and Call Service at the Ref. Will be paid shareholders within 30 days from the date of AGNI i.e. 15th September, 2021 Tan Chulded at Service (TDIS) in terms of the provisions of the Income Tax, amonded by the Financia Add, 2020.

ameneous up or manuscuta, azuzu.
Manner of registering/hupdating e-mail addresses and Bank details
In case the shareholders has not registered their e-mail addresses with the Compan RTADepositories ander not updated the Bank Azcourt mandate for receipt of divide online through ECS or any other setzonic mode, the following instructions are to

...eureu.-(I) Visit the website of RTA, Bigshare Services Pvt. Ltd. www.bigshareonline.com under Investor Services>E-Mail/Bank detail registration under lini https://www.bigshareonline.com/investorRegistration.aspx. Fill the details and upboa

red documents. case shares are held in dematerialization form, such shareholders, alternatively, co ct Depository Participants (DP) and register their email address and bank accou is in their DEMAT Account as per process followed/advised by the DP.

vocamen uner uconvo. Account as per process followed/baked by the DP. The Company has engaged services of CDS. be providing "mental-evolting" (sality to all its members to cast their vote additionally the company is also providing the facility of vicing from the recording of sentender of placed. Alth. The delais but on amount of () casted vicing from the recording of vicinding (a) altereding AGM through VCDAWM has been stated on the recording of vicinding and vicinding and vicinding AGM through VCDAWM with the counted for the purpose of residencing the square in the counted for the purpose of residencing the square in the counted for the purpose of residencing the process of residencing the square of the counted for the purpose of residencing the square of the counted for the purpose of residencing the square of the counted for the purpose of residencing the square of the counted for the purpose of residencing the square of the counted for the purpose of residencing the square of the counted for the purpose of residencing the square of the counter of the purpose of residencing the purpose of the purpose of the counter of the purpose of the counter of the purpose of the counter of the purpose of the purpose of the counter of the purpose of the pu

Place : Hamirgarh, Bhilwara Date : 06th August, 2021

cities is a given, he emphasised.
Among the major markets,
Bengalturuis the most preferred
with the realty firms, while the
Mumbai Metropolitan Region
(MMR) and Chennia are partof
fivelisted developers' expansion
plans, Anarock said.
Kochi, Coimhatore, GIFT
city, Hosur, Thrissur and
Trivandrum appear prominentlyin the expansion planof
these players into tier-II and
III cities, it added.

Hyundai leads where it matters most: **SUV sales**

The Korean automaker has been riding high on diesel modelsales and features on the dashboard it offers to cus-tomers, as also the increasing usage of personal mobility

usage of personal mobility after the pandemic.

"Dost the pandemic, an increasing number of poopleare travelling with their families in personal vehicles even for long distances and especially for vacations; Garg said. "Earlier if vacation holiday on a self-driving vehiclewas limited to 200-300 km — and beyond that it was via trains or flight —now

Table issues from Coperations
Neel People of Security (Security of the People of British (Security of the People of British (Security of the People of British (Security Of Security Of Se

Notes. 1. Key numbers of standalone financial results.

Particulars

Keva

that has increased to over 500 km. People increasingly prefer cars loaded with features

km. People increasingly prefer cars loaded with features—because they are spending a longerthine in the car—and with a diesel engine, especially in the midstee SUV space and above." This, in part, explains why the automaker's focus on diesel after BS6 has been paying off well—the time when Maruti Suzuki exited the diesel space. Garg said there are certain markets where diesel outsells petrol in cars that cost above ₹10 lakh (Maruti Suzuki doesn't have too many models in that price range). Twinki about 60% offall-India Creta sales are of diesel variants, in Punjab it's 68%, in Madhya Pradesh 67%, in Andhra Pradesh 66%, in Uttarakhand 65%, and in Uttar Pradesh it 63 %%, "he said.

The more expensive the car, the higher is the diesel engine sales percentage Forexample, in thought of the proposal of the processor in the diesel engine sales percentage Forexample, in Processor in the content of the processor.

sales percentage. For example, in Hyundai Alcazar — launched in June and priced ₹16.3 lakh to ₹20.14 lakh, more than Creta's ₹10.16 lakh to ₹17.78 lakh — ₹10.16 lakh to ₹17.78 lakh — the discel variants's alse share is 65%. "As far as bookings of the Alcazar are concerned, in Madhya Pradssh 82% are for diesel variants, in Rajasthan it is 82%, Andhra Pradesh 81%, Gujarat

S H KELKAR AND COMPANY LIMITED

CIN Not 17499MH1955PLC09593

Regid, Office ; Denkinan Mannico, 25 Sangaidas Hoast Mannico 400001 India

Websites new Anniaso in E-mail: investora@kowa.co.in,
Tel No. +91 22 20169183, Fau No. +91 22 20169181

Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30 June 2021

Quarter ence 38 June 2021 Unaudited 355 54

24.43

24 43

81.38 15.0

82.85 141.32

ster ended Quarter ended Quarter ended

192.53

15.19

19 19

14.08

83:24

53.21

40 16

37.09 141.32

73% and Uttar Pradesh 67%."

ple, in the Alcazar, the price dif-ference between petrol and diesel models is in the range of \$15,000-25,000, even after BS6. So, our focus on diesel has been paying off?" Going forward, analysts said Hyundai will be able to

maintain the lead in UVs at maintain the lead in UVs at least in this calendaryear, but post that Maruti Suzuki could bounce back. Gaurav Vangaal, associate director, IHS Markit, told FE that in CY22 both the automakers could be both the automakers could be competing neck and neck in UVs. "Maruti Suzuki is expected to launch the new Vitara Brezza early next year and an all-new seven-seater SUV after that, which will give a new momentum to its UV sales. At the same time Hyundai is expected to get into the MUV segment with a new product early next year, and that may further increase its UV sales, "he said.

This single vaccine has

321 06

181 00

193.50

143.97

140.72

816.29

73% and Uttar Pradesh 67%," Garg said.
"What has helped is that we are able to offer the diesel option at a marginally higher price than the petrol; for exam-ple, in the Alcazar, the price dif-

J&J gets emergency

been developed by the Janssen Pharmaceutical Companies of J&J. The J&J Covid-19 single-dose vaccine has to be stored at 2-8°C. According to J&J, their single-shot Covid-19 vaccine had demonstrated response lasted through least eight months, Overall t

response lasted through at least eight months. Overall the vaccine had an efficacy of 85% against severe and criti-cal Covid-19 disease. The country on Saturday crosed the 50-crore mark in vaccination administration. There were 38,628 daily new taking the active case load to 4.12 lakh cases with a daily case positivity rate of 2.21%.

vaccine had demonstrated strong neutralising antibody activity against the rapidly spreading Delta variant. This variant is dominant in India. Their data showed that the durability of the immune

LUMAX INDUSTRIES LIMITED

DS IAIN

CIN: L748960L1981PL0012804 Regd. Office: 2" Floor, Harbons Bhayan-B, Commercial C Nangai Raya, New Dehl. 110045 Tel: 011 4985783

NOTICE OF 40" ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given inst 40³ Annual General Meeting (AGAN) of the members of the Company will be held through Video Conferencing (VCI) Other Audio Visual Means (GAVA) on Tuesday, 31 August 2921 at 16.30 a.m.(IST) to transact the business; as set out in the Notice of AGM.

as 16.30 a.m.(IST) to transact the business, as set out in the Notice of ACM.

In accordance with the applicable provisions of Comprants Act, 2013 and Rhalts made inferenced and the Sociations and Exchange Burnd to India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circuits 96, 147203, 172203, 202202 (asteed 2 April 2000, 13 April 2000, 5 May 2003 and 13 January 2022, 1899, 1999) and other particular circulars season by Ministry COZZ, 1899, 1999, and the particular circulars season by Ministry COZZ, 1899, 1999, and the particular circulars season by Ministry COZZ, 1899, 1999, and 1999, and 1999, 199

sever assembles com-in completions with the provisions of Section 188 of the Companies, Act, 2013 reset with Rule 20 of the Companies, (thorsepenant and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, and Regulation 44 of SEBI (Listing Onligations and Disclosure Regulation 46 of SEBI (Listing Onligations and Disclosure Regulation 47 of SEBI (Listing Onligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards on General Meeting (SS-2). the Company is ploased to provide remote e-conting facility bits members, serves from a place other than various of AGM through VolOVAM facility and 6-voting facility for the Mirrordh National Securities Dispository Limited (NSDL). The procedure/instructions in this respect have been provided in notes to the Notice of AGM.

Inrough National Securities Dupostory Limited (NSDL). The procedure/finatuolous in this respect have been provided in notes to the Notice of AGM.

The members of the Company holding shares either in physical forms or the denderalized form, as on cul-off data is 2.3 August 2021, shall be will be a shared to the company of the company of the members of the needle provided in notes of the procedure of the company of the company of the company of the Cul-off Data. The remote e-voting period shall commance on Saturday 23 August 2021 (90.00 A.M. IST) and end on Monday 30 August 2021 (90.00 A.M. IST) and end on Monday 30 August 2021 (90.00 P.M. IST). The remote e-voting period shall commance on Saturday 23 August 2021 (90.00 A.M. IST) and end on Monday 30 August 2021 (90.00 P.M. IST). The remote e-voting provides shall be disabled by NSSL, for voting thereafter. Once the vote shall not be period to the company after middle of the provided in the company of the provided in the provided in the company of the company state of the company state resident of the provided in the company of the comp

Persimpants.

In case of any queeies relating to evolting or attending AGM income of any queeies relating to evolting or attending AGM income (PAGs) for the Sharmholders asia ovoting user mental for Shareholders available at the convolution section of exchanged as the convolution of evolutions of the convolution of

For Lumax Industries Limited Pankaj Mahendru Company Secretary Membership No. A 28161

Pedid the Tail.

The siture conscilicated foundates needed ST Kederan Company Tailed 1 and 16 selectation in classification.

The siture conscilicated foundates needed ST Kederan Company Tailed and its selectation in classification in classification of the control based for the Company of the ST Commission of the ST Commis For and on behalf of the Board Sd/-Ramesh Yoze Director and Chairman of the Board

Sudhir Garg Company Secretary & GM (Legal) M. No. ACS 9684 RICH UNIVERSE NETWORK LIMITED

By order of the Board of Directo

STATEMENT OF STANDALONE UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR

Sr. No.	Particulars		three months anded \$1/93/2021	Corresponding three months ended in the previous year 36/66/2020	Previous Financial Year ended 31/03/202
1	Total Income from operations (set)	Un-audited 0.48	Audited 640.88	Un-assisted 3.39	Audited 2192.80
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and for Extraordinary items)	0.05	(7.46)	(5.68)	36.91
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	0.05	(7,46)	(5.68)	36.91
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and /or Extraordinary Items)	0.05	(7.46)	(5.68)	31,15
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Net Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.05	(7.46)	(5.68)	31,15
6	Equity Share Capital	725.28	725.28	725.28	725.28
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet)		~	*	10.81
8	Earnings per share (Face Value Rs. 10)- each) (for continuing and discontinuing operations): (a) Basic	0.00	0,00	0.00	0.00
	(b) Diluted	0.00	0.00	0.00.	0.00

1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 06.08.2021 and the Statutory Auditor of the

Company has issued their Limited Review Report on the same.

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements, 2015, The full format of the Counterly Financial Results are available on the Bombay Stock Exchange website (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.richuniset.com).

. . .

For Rich Universe Network Limit

Date: 06.08.2021 Place : Kanpur

(Shashwat Agarwat) Chairman & Managing Director DIN: 00122793



Franklin Templeton Mutual Fund Indiabulls Finance Center, Tower 2, 12th and 13th Floor, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road (West), Mumbai 400013

Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW) in certain schemes/plans/options of Franklin Templeton Mutual Fund

The Trustees of Franklin Templeton Mutual Fund have decided to distribute the following Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW):

Name of the Schemes / Plans / Options	per Unit (₹)		NAV per Unit as on August 5, 2021 (₹)
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 4 - P	lan C (1098 Days) (FIF	MP-4-C)	
FIFMP-4-C - IDCW		0.775	10.8530
FIFMP-4-C - Quarterly IDCW	10.00	0.170	10.2412
FIFMP-4-C - Quarterly IDCW - Direct			10.2504
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - P	lan B (1244 days) (FIF	MP-5-B)	
FIFMP-5-B - Quarterly IDCW	10.00	0.185	10.4861
Franklin India Fixed Maturity Plans - Series 5 - P	lan F (1203 days) (FIFI	WP-5-F)	
FIFMP-5-F - Quarterly IDCW		0.185	10.4557
FIFMP-5-F - Quarterly IDCW - Direct	10.00		10.5131

The Record Date for the same will be August 13, 2021 (Friday). If in case the Record Date falls on a non-Business Day, the immediately following Business Day shall be the Record Date. All the Unitholders / Beneficial Owners of the IDCW plan / option of the scheme whose names appear in the records of Registrar / Depositories as on the Record Date shall be entitled to receive IDCW. The investors in the IDCW re-investment plan/option will be allotted units for the IDCW amount at the NAV of next Business Day after the Record Date.

**Please note that the IDCW payout shall be subject to the availability of distributable surplus and if the available distributable surplus as on the record date is lower than the aforementioned IDCW rate, then the available distributable surplus shall be paid out. The payout shall be subject to tax deducted at source i.e. TDS, as applicable.

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the scheme would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).


For Franklin Templeton Asset Management (India) Pvt. Ltd. (Investment Manager of Franklin Templeton Mutual Fund)

Saniay Sapre

Date: August 7, 2021

Sd/-

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. New Delhi









होरवाड़ा बीईओ ने पदभार सम्भाल

खेरवाड्ना राजस्थान शिक्षक संस् एकोक्न बसीक मोरवाड्ना के अध्यक्ष भारत भूपण जोरते ने आज नव शिद्धक पूर्वक क्वाँक शिक्षा अधिकारों पंचायत समिति खेरवाड़ा प्रकार नदें जैन का शिवक एक सामार्थिक कर अधिकारों को मीरी मोर्टिक कराया. तथा एकोक्त के सभी सदस्यों की क्याई क शुभकागार्थ भी प्रीयंत की।

ऋषभदेव तहसील अध्यक्ष बने झाला



सरपारी अध्यक्ष वर्ष इसिता चेरबाइ (आतःकाल संबाददाता)। देश के सबसे बड़े सामार्थिक संगतन श्री राष्ट्रिय अवसून करणी सेत को जिला कार्यकारणी को कैंक उत्पूष्ट (बेला कार्यक्ष में आजेरिका दूरिवामी सितापक दिग्लिक्स सिंह सारंगदेवोह (बाटेग्र) ने बस्पेटिव वात्सील अध्यक्ष के पट पर गर्वेन्द्र सिंह साला कल्पापाए को नियुक्त किया।

नवनिर्वाचित सरपंच ने किया पदभार ग्रहण



यवाओं ने किया पौचारोपण

उपपप्ता जिले के अवभवेत तरातीन के मारार्थ को आंवरी ग्राम पंचायत के सामाजिक कार्यकर्ता चेनन मारार भीत के सामिन्य में पीधीएण कार्यक्रम आर्माजित किया गाना इसमें प्रकृति को स्वाने व पार्टी, द्विते, फिल्कुन खार्चे प्रोप्तीज किया गाना इसमें प्रकृति को स्वाने व पार्टी, द्विते, फिल्कुन खार्टी रोकने का संदेश दिया गया: साथ ही हमेशा सामाजीत कार्य हैत बात कही गई।

प्रतापपुरा जावरमाइंस स्टेडियम में मनेत्रा आदिवासी दिवस प्रतापपुर्व जादरमाइस स्टेडियम में मनेना आहिटतासी दिवस उच्यपुर शिक्ष आरिकारी दिवस 3 अगरक को मनाने को पूर्व वैद्यारी को लेकर हमर पंचारत नेवानाचार पर नैवक आसिका को गई इसमें मार्ग पूर्वाओं की नगरिनिर्पण हमा आदिकारी दिवस प्रकारपुर जनक गर्मत प्रदेशियन में महत्त्र को सम्पर्यन बनी। इस अस्मार मा आदिकारी नेवरपुर औरस्कृति को अर्दारिक करते हुए कर्पक्रम अर्थादिक करने का निर्णय दिवस प्रवाद किक में दिवस अर्थाप्त संस्थान के प्रवादिकारी ने पाग दिवस है इस दिन कोशिव हुए को पारन एवड़िया औरहा सिर्मा प्रवादिक करते का निर्णय दिवस किया निर्मा प्रवाद किया है। एवड़िया औरहा सिर्मा प्रवादिक करते का सम्पर्व कियान राज्य मीण्य, निर्मा स्वाद प्रवाद औरहा सिर्मा प्रवाद प्रवादिक करते के सम्पर्व कियान राज्य मीण्य, निर्मा साम्य प्रवाद औरहा सिर्मा प्रवाद प्रवादिक करते के स्वाद कियान प्रवाद मीण्य स्वाद मार्ग्य स्वाद देवी मीण्य, समाजिक कार्यकारी विवसन सुमार मीण्य, इरीत मीण्य, अर्थन कारानुम सामाजिक कार्यकारी विवसन सुमार मीण्य, इरीत मीण्य, अर्थन कारानुम सामाजिक कार्यकारी विवसन सुमार मीण्य, इरीत मीण्य, अर्थन

दो अनाय बच्चों को शिक्षा से जोड़ा

योलो सेक एण्ड बेंबरेजस कम्पनी के विरुद्ध आदेश पारित वीलों स्किट एण्ड वेदराजस कम्पनी का रिक्ट्र आदेश पासित हिस्सिंग्रहम सेनों के एपड बेसेजर कमनी हुए आमें है तरहम सावेकते के करण दिस्सा उपमोक्ता विकाद प्रतिकोंग आसीण प्रदार आदेश दिस्त गया। 21 जुलाई के दिस्सा उपमोक्ता विकाद प्रतिकोंग आसीण असी प्रश्नाक आसेट एएं सहस्या प्रवेशमां भीच, असिंबर कुमार पट्टे प्रसाद परिवाद प्रताद के प्रताद के असी प्रदार असीवता सिंदी मंदित कर्मकार के स्वाद प्रताद स्वाद के प्रताद कर क्षेत्र स्वाद कर क्षेत्र प्रदार के स्वाद कर क्षेत्र कर क्षेत्र स्वाद क्षेत्र कर क्षेत्र स्वाद क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र स्वाद कर क्षेत्र क्षेत्र कर क्षेत्र स्वाद क्षेत्र क्षेत्र स्वाद क्षेत्र स्वाद क्षेत्र स्वाद कर क्षेत्र क्षेत्र स्वाद कर क्षेत्र कर क्षेत्र स्वाद क्षेत्र क्षेत्र कर क्षेत्र स्वाद क्षेत्र कर क्षेत्र स्वाद क्षेत्र स्वाद कर क्षेत्र कर क्षेत्र स्वाद कर स्वाद कर क्षेत्र स्वाद कर क्षेत्र स्वाद कर क्

दस दिन से खड़ी है लावारिस बाइक, सुचना देने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची



पुलिस नहीं पहुंची
स्वार्थ (प्रान्तकाल संवादाता)। गग एवं सेएवसी में आए दिन बहुके बोरी
स्वार्थ (प्रान्तकाल संवादाता)। गग एवं सेएवसी में आए दिन बहुके बोरी
से भी प्रत्या है परि है जिसको लेकर पुलिस अब तक बोरी के मित्रका लक्ष
पूर्व नहीं गाँ हैं। इसर देवाए काणी सम्ती में
पाछने 10 तिमें उदरम्भ पासिन मन्द्र को एक
गाइक लावित अस्तान में बहुने हैं त्यावते पुलिस
गाइक को अर पक अर्म के कर्म में हैं पाड़ी में
जानकारी के अर्म का अर्म के कर्म में हो क्या है।
जानकारी के अर्म का अर्म के कर्म में में क्या है।
जानकारी के अर्म का अर्म कर्म में हो क्या है।
जानकारी के अर्म का अर्म के बात 10 दिन पूर्व रात के
स्थाप पक तरबार् पासिन के दिन स्थाप कर्म में स्थाप को सम्पन्नतः
वारी को होगी। जिस्सा महान भावितक क्यान क्यान क्यान के सुन स्थाप है।
अर्म प्रत्या ने प्रत्या से स्थाप के स्थाप क्यान क्या

सांसद कटारा ने गडकरी व बिडला से की भेंट



सांसद कटारा ने अडकरी व विडला से की मेंट सायबाब (प्राय-असस संबद्धाता)। शांसाबा- दौरपुर, खंगर करकामन कराय ते वह दियों में केटीय मुझ्क परिवादन वर्ष गोहोत यह भागे मंत्री तितिन गढ़करी वर्ष दियों में केटीय मुझ्क परिवादन वर्ष गोहोत यह भागे मंत्री तितिन गढ़करी वर्ष ते के अर्थायाची मान्य स्वत्य से भेट करते हुए केते के अर्थायाची समस्यक्रते मान्य दिख्यों के की अर्थायाची मान्य दिख्यों के मान्य स्वत्य के मान्य से म

कंपनियों के लिए सख्त सीएसआर नीतियां बनाई जाए : सांसद

नीतियां बनाई जाए: सीस्पद एक्सप्यंट (अक्सक्तस संवादहाता) । संयर के मामपुत सब के दीएन सांसद दीना कुपारी ने कप्यान्दी के सावित्तक उत्तरांका (सीस्प्रभार) के क्षेत्र में मुक्त स्त्र पूरा उदले हुए कंपीयों के हिंग, पत्तर सीस्प्रभारा सीवित्त अवसे की मांग को सांसद रोगा ने कहा कि त्याचार संयर्थ के में हिंगुस्तान विका की सुने क्षेत्र में की को सांसद रोगा ने कहा कि त्याचार संयर्थ के में हिंगुस्तान विका की सुने क्षेत्र में की के की पत्ती की सांसद में की की सीस्प्रभार का सम्यान पूर्व ति हमें को स्वानस्था में याची हमें कुपार माहित्स के नक्त हिंगुस्तान का सम्यान पूर्व ति हमें क्षेत्र में की स्वानस्था में याची हमें कुपार माहित्स के नक्त हिंगुस्तान का सम्यान पूर्व ति हमें क्षेत्रीयों के याची हमें कुपार माहित्स के नक्त हिंगुस्तान का सम्यान पूर्व ति हमें क्षेत्रीयों याची हमें के अपनीता हमें कि सामित हमें की स्वानस्था में की हिक्स के की स्वानस की से कंप्तियां की पहले, हीरिट्स की का से सहस्था स्वानस्था की स्वानस के मिल्ला की स्वानस की स्वानस्थ है। दिव्या निर्मेश के सामाग्रिक-आर्थिक विवास की अपनीत्रक स्वानस की से स्वानस की से स्वानस की से स्वानस की से स्वानस है।

फतहनगरः पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कर्मचारी को धमकाने का आरोप

हैं। जानकारी के अनुसार नगर प्रतिकार मंगोहरालाल विचारी में राज्य प्रतिकार मंगोहरालाल विचारी में राज्य प्रतिकार मानाहराला में कार्यर प्रतिकार मानाहराला मानाहराला के प्रतिकार मानाहराला कि प्रतिकार मान

दिनभर लगी सावन की झडी



परिराक्त में तेज बरमात के बाद बादता प्राची।

परिवार में तैने बरता के बाद करता करी।
धरिपायद (प्रातःकाल संवाद्वाता)। क्षेत्र में मुक्ताप्तर
अरुपुत्ता से तुरू हुआ बरता का दोर देर साथ रक्त वार्षी
पा इस से रिता ककरूक कर पायम में तेज बरस्त होती
पा इस से रिता ककरूक कर पायम में तेज बरस्त होती
पा है से साथ कर का पी हों। दिनभर पानी वरस्ता के कसते कहाँ में स्थाप कर साथ है। विश्वेष करती
गरिय साथ साथ होता कर साथ कर साथ कर साथ कर साथ करते कर साथ कर

भंतर सेमला बांध का बढा चलातर प्रेयत नहीं के बहाव क्षेत्र के पास मतिविधि पर रोक

TINL BIOGRAPH STATE FEED PRANT-LAMBUYAKALAN & CONTROL OF STATE OF

बैठक से नदारद रहा सत्ता पथ का तजुर्बेदार पार्षद

देवगढ़ नगर पालिका की जगह हुई पार्षदों की चर्चा बैठक, विपक्ष के पार्षदों ने किया बहिष्कार

सरपंच, सचिव व सहायक सचिव की

मनमानी से निर्माण कार्यों में

अनियमितता का आरोप

देवपाइ (प्रात-काल संबाददाता)।

है जनता को सभी पार्ण्ड में लार्डित को। बैठक में उपाण्यक प्रदेश सिंह देवपाइ (प्रात-काल संबाददाता)।

है जनता को सभी पार्ण्ड में लार्डित को। बैठक में उपाण्यक प्रदेश सिंह देवपाइ (प्रात-काल संबाददाता)।

है जनता को सभी पार्ण्ड में लार्डित को। विकास कियो सिंह के स्वर्ट्डा की समान्य परिवर्ग ने नार्टित सीनार के कहा कि मोर्ड के कहा कि मोर्ड के कहा कि मोर्ड के स्वर्ट्डा की समान्य परिवर्ग ने नार्ट्डा को स्वर्ट्डा का कियो की स्वर्ट्डा को समान्य परिवर्ग के सामान्य परिवर्ग के सामान्य परिवर्ग कार्ट्डा कार्टडा कार्ट्डा कार

पंचायत समिति राजसमन्द में स्थायी समितियों के चुनाव निर्विरोध सम्पन

साजितियों के चुनाव निरिटोध समयक्ष राजसर्थर । आगंव विश्वण एवं पंचावती राजधिकान के विरितालास हुकवार को पंचावत सामित राजधिकान के विरितालास हुकवार को पंचावत सामित राजधिका में प्राचित के व्यावण निर्मित प्राच्या प्रति प्राचित क्षिणकों एवं विश्वस अधिकारी पृथ्येश किए पीतान ने क्षणा कि सामे 16 विश्वीच राज्या अधिकार सामित के सामे 16 विश्वीच राज्या अधिकार सामित के साम प्रत्य कार्यकान नी स्थाव के साम के विश्वीच प्राच्या की सामित ने नी कि हो के साम के विश्वीच प्राच्या की सामित के साम सामित के साम के सामित के प्राच्या नी सामित के साम सामित के साम के सामित के प्राच्या नी सामित के साम सामित के साम के सामित के प्राच्या नी सामित के साम सामित के साम के सामित के प्राच्या नी साम के सामित के साम के सामित के प्राच्या के सिरीयों ज्ञापका मोत्या सामित के साम साम के सामित के सामित के सामा के सामित के सामा के सामित के सामा के सामित के सामा के साम के सामित के सामा के साम के साम

चलते हो रहा है ऐसा-

चलते हो रहा है ऐसा प्राप्त ६ गरीने हे देशाह गाय प्राप्त में महाज वर वहें होने के कारण रामनेय प्रीवाली प्रोद्धाने कारण रामनेय प्रीवाली प्रोद्धाने केंद्र को कार्य नहीं कार्य के कार्य है। केंद्राव के इतिहाद से पार्टी वर है। केंद्राव के इतिहाद से पार्टी वर्ष कार्य हो रहे हैं कहते कार प्रतिक आज्ञा में महत्त्व कहते कार प्रतिक अज्ञान में महत्त्व कहते हुन्ते कार प्रतिका सेंद्र की देशक हुन्ते कार के कार्य की अपनी दिल्ला कार्य तथा अज्ञान की अपनी दिल्ला कार्य तथा अज्ञान के प्रवास केंद्र के कार्य तथा अज्ञान के प्रवास केंद्र के कार्य तथा

उरेर से पार्टी के निर्वाधित पर्वाई की एक अवस्थान केंद्रिक अस्त्रीता की तर्व दिससे पार्टी के केंद्रिक कुमने के निष्क निर्धार्थन पूर्वेंद्र के उपय स्थादन तथा का उपयोक्त अस्त्रिती अस्त्रिकारों के स्थानकों से पुरू प्रतिकार करों होना वाहिये विस्तर्क स्थान प्र केवन मात्र प्रतिकारणक की सुपन करें किए जाने का विक्रि पर न्यूक के क्रिफेट करो हुए हु कर की बैठक कर बीए करने निर्मय किया गया।

स्ट्रांटन के प्रतिकृति के प्रति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृत

त्वना

The control of the co 🔪 नितिन स्यिनर्स लिमिटेड

CIN : L17111RJ1902PLC006987 प्रेमेश्चन कार्यन्य > 8-17 कि.मे. स्टोन वित्तेषु तेषु इस्टेश्य, मेल्याड (स.स.) 311021 प्रोम सं. 01482 - 286110 से 113, पैसास सं. 01482 - 286114

प्रसेश कर कर्माण - १४-१7 हैं तर्र , जीन तर्ग , विरोध हो, प्रसेगात, विराध हो । १४००० के साथ कर १४-१7 हैं तर्ग , जीन क्षेत्र के अपने प्रसेग , विराध हो । १४००० के साथ कर १४००० के साथ कर १४०० के साथ कर १४०० के साथ हो । १४०० हो । १४० हो ।

स्वीत प्रकारक और प्रेरिका निर्मित को केरनाहर www.nsimilia.com पर उस्तार वार्तीयोः
क्रिकेश मानव ने निर्मित को उर सर्व 2021 के हेंदू समर्थन की वर रुपये 150 प्रोत केर स्विका मानव ने निर्मित को उस सर्व 2021 के हेंदू समर्थन की व्यवस्थ में रुपये के हिस्स के रेकर के सामक सुरूप रुपये (V) पर अपने प्रकार की प्रकार प्रदेश में रुपये के कि कि स्वार के रेकर के सामक सुरूप रुपये (V) पर अपने की प्रकार की प्रकार के प्रकार के प्रकार की प्रकार को प्रकार की प्रकार की प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकार की प्रकार के प्रकार की प्रकार के प्रकार के प्रकार की प्रकार की प्रकार की प्रकार के प्रकार के प्रकार की प्रकार की प्रकार के प्रकार के प्रकार की प्रक

दिसंदर्भ : 06.08.2021 रचन : मीरावद्भा

(सुधीर गर्न वांपनी लीवर व सहस्रकारक (निर्दे क्यरपात्र सं. ए.सी.पस. १६८४

अजिटियिनिता को अप्टिपि कृपपुर (प्रात-काल संसददतत)। जिला प्रत्यसन को अरुदेशी के नवले पंचालों गुरू में प्राम पंचावनों में होते माने कार्यों में उत्तर मराजर को विभिन्न लाभकारों पोत्रनाओं में भारी अप्राचार किया जा रात है। और हमके पहले आम जन को सरकार को किसी भी योजन का अब तक प्राम पंचायन के प्रारंग, प्रतिक को केदरवानी न हो तन कर देने किसी प्रकार का भाग नहीं सिय पात्र है और आने चाले पैसे का काराजों में ही हिसाब कारके वाचा खार्च कर लिया बाता है। हमी तरक का इक मामपाना आसपुर पंचायन प्रतिक्र काराजों में ही हिसाब कारके प्राचान कार्या कार्या है। हमी तरक का इक मामपाना आसपुर पंचायन प्रतिक्र के ताले हमारा पंचायन से सामने अवाह है बिसमें पंचायन की गूरी कोरा में विकास अरुवारों को पंचायन है में हो हमारा और परमानी का ब्लीश देते हुए तत्काल मानित व प्रशासक सिवल को इटरों को मान की है और टैकरार के जायिन कार करवायों में पर हमकी उच्च स्तरीय जीन करा कर करवायों करते की सोग की है। रोडवेज कर्मियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन



पूरपपुर (प्राप्तकाल संबाददाना)। ग्रेड्नेज संपूल कर्मवारी राष, दूरपुर के प्रयाद और संवारिका कर्मवारी राष, दूरपुर के प्रयाद और संवारिका कर्मवारी के अपनी मांगे को लेकर अमेन्य अक्षरय में सरकार के प्रताय कर्मवार को प्रवस्ता ग्रेड्नेज के अस्पिक संपानों के संस्था मांची को क्षेत्र में ग्रेड़िक्त कर्मवार संस्था संस्था कर्मवार क्षेत्र का संस्था के नेतृत्व में स्थानित्वन व वर्धमान ग्रेड्नेज कर्मामी मांगों को लेकर राज्य स्वराद के क्षिणक अमेन्य प्रदर्शन कर्मामी विश्वते अस्प सरकार के क्षिणक अमेन्य प्रदर्शन कर और वस्कर सरकार के क्षास्त्र कर्मामा होंगे को लेकर राज्य स्वराद के क्षास्त्र कर्मामा होंगे को स्वराद के स्वराद सरकार के क्षास्त्र कर्मामा होंगे को स्वराद कर स्वराद के राज्यस्थान ग्रेडिक्टेज कर्मवारियों को स्वरादिक स्वराद के वार्तमा में ग्रेड़िक कर्मियों को पिछले दो माह से लेकर पीया में मार्की प्रधानी का समाना करना पट ता है। सिड़ीक कर्मो हाल के जिसके लाल कर पीयार के स्वराद को मजबूर है। तिर्थेज कर्मवारियों ने सरकार से दी एक मुगाना करने, साली पर्यों को मार्ग गई बसो की क्यार

कि लेकर किया प्रदर्शन करने अप रोडक्क करने अप रोडक्क करने अप रोडक्क कर्म प्रस्कार में समाचेजन करने की पाने की रोडक्क कर्म प्रमें के पूरा नहीं करने उस रोडक्क कर्म पाने के पूरा नहीं करने पर प्रमान करने कियानों है। विज्ञान करने प्रसान कर

(0)

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आई.एम.यू)

(पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक केन्द्रीय विश्वविद्याल 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 हेतु आईएमयू में निम्नत्तिखित कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं:

पूर्व-स्नातक	स्नातकोत्तर		
बी टेक (मरीन इंगीनियरिम)	एम बी ए (पोर्ट एवं शिविन मैनेजनेट)		
बीटेक (नवल आर्किटेक्चर एवं औरान इंगीनियरिंग)	एम.बी.ए. (इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन एवं लोजिस्टिवस मैनेजने		
बीएससी. (मोटिकल साइंस)	एम.टेक (नवल आर्किटेक्चर एवं औरान इंगीनियरिंग)		
बी बी.ए. (लॉजिस्टिटक्स, स्टिलिंग एवं ई-कॉमर्स)	एम टेक (ड्रेनिंग एवं सर्बर इंगीनियरिंग)		
डी एन एस (डिप्लोमा इन मॉटिकल साइस)	एक टेक (करीन इंगीनियरिंग एवं मैनेजमेंट)		
पीजी	डिप्लोमा		

मरीन इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा

अधिक जानकारी के लिए कृपया आई.एय.पू की वेबसाइट <u>www.imu.edu.in</u> देखें